

निशुल्क कानूनी सहायता और साक्षरता शिविर

आज दिनांक २६ नवम्बर २०१६ को मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वारा "विधि दिवस" के शुभ अवसर पर चित्तोड़गढ़ के सुभाष चौक पर "निशुल्क कानूनी सहायता और साक्षरता शिविर" का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से आमजन को विभिन्न प्रकार के मामलो पर कानूनी परामर्श और मार्गदर्शन दिया गया. शिविर का उद्घाटन जिला बार संघ के अध्यक्ष श्री शिव नारायण जाट जी ने रिबन काटकर किया.

शिविर के दौरान आमजन से जुड़े विभिन्न मामलो के बारे में परामर्श और मार्गदर्शन दिया गया जैसे-वैवाहिक मामले, तालाक, जमीन, परिवार, महिला, बच्चो, दुर्घटना, चैक अनादरण और अन्य आपराधिक मामले.

शिविर के मुख्य अतिथि जिला बार संघ के अध्यक्ष श्री शिव नारायण जाट जी रहे. श्री जाट जी ने अपने भाषण के दौरान शिविर के सम्बन्ध में अपने विचार रखे और शिविर आयोजन की प्रशंसा की. श्री जाट जी ने कहा कि समाज में कानूनी जागरूकता, कानूनी साक्षरता और परामर्श बहुत ही आवश्यक है ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक और साक्षर हो सके. श्री जाट जी ने घोषणा भी की कि आगामी वर्षों में इस दिन को जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जागरूकता फैलाई जायेगी.

शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आमंत्रित कार्यकर्ता श्रीमती भारती गहलोत जी ने शिविर के सम्बन्ध में अपने विचार रखे और मार्गदर्शन दिया. श्रीमती गहलोत ने अपने भाषण के दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक और साक्षर किया. श्रीमती गहलोत ने महिलाओ के अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, घरेलू हिंसा, मात्रत्व, कन्या भूर्ण हत्या, महिला उतपीडन, महिलाओ को निशुल्क सहायता आदि विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला.

शिविर के दौरान छात्र छात्राओ के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमे नुक्कड़ नाटक, भाषण और परामर्श आदि प्रमुख रहे. इनकार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को विभिन्न कानूनी मामलो के प्रति जागरूक किया गया. नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष प्रकाश डाला गया. शिविर के दौरान निशुल्क सहायता और परामर्श स्टाल भी लगाये गये और आमजन को जागरूक किया गया.

शिविर के दौरान जिला बार संघ के अध्यक्ष, श्री शिवनारायण जी जाट, जिला बार संघ के सचिव श्री पूरण जी मैनारिया, जिला बार संघ के कोषाध्यक्ष श्री कालू लाल जी सुथार, मेवाड़ एजुकेशनल सोसाइटी के महासचिव श्री गोविन्द लाल जी गदिया, मेवाड़ विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री वी. एन. राजशेखरन पिल्लई, ओ एस डी श्री एच विधानी जी, विधि विभाग की अध्यक्ष आशा रानी रावत जी, मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. रविन्द्र कुमार, सहायक प्रोफेसर श्री मनोज कुमार यादव जी, श्री विनोद कुमार जी, श्री अमित कुमार जी, कु. सोनिया ठाकुर, श्री दीपक कुमार जी आदि उपस्थित रहे |